



स मा चार

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश समाचार

श्रीमती नीना विक्रम वर्मा होंगी विधान सभा सदस्य सुविधा समिति की सभापति

भोपाल : 22 अप्रैल, 2017

वर्ष 2017-2018 की अवधि के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा में सदन समितियों के गठन के क्रम में विधान सभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा सदस्य सुविधा समिति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति, नियम समिति तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति का गठन किया गया है।

विधान सभा अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने श्रीमती नीना विक्रम वर्मा को सदस्य सुविधा समिति का सभापति नियुक्त किया है। श्रीमती ममता मीना, सर्वश्री अशोक रोहाणी, जितेन्द्र गेहलोत, तरूण भनोत, महेन्द्र सिंह बागरी, लाखन सिंह यादव, रामेश्वर शर्मा एवं सुरेन्द्र बघेल इस समिति के सदस्य नामांकित किये गये हैं।

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय शासकीय आश्वासन संबंधी समिति के सभापति बनाये गये हैं। सर्वश्री कमलेश्वर पटेल, के.के. श्रीवास्तव, दुर्गालाल विजय, मनोज अग्रवाल, यादवेन्द्र सिंह, योगेन्द्र निर्मल, रणजीत सिंह गुणवान, राजेश सोनकर, रामेश्वर शर्मा एवं सूबेदार सिंह रजौधा इस समिति में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये गये हैं।

विशेषाधिकार समिति में सुश्री निर्मला भूरिया, सर्वश्री अनिल फिरोजिया, आशीष शर्मा, ओमप्रकाश सखलेचा, अंचल सोनकर, महेन्द्र हार्डिया, महेन्द्र सिंह सिसौदिया, सुन्दरलाल तिवारी एवं कुंवर सौरभ सिंह सदस्य नामांकित किये गये हैं जबकि श्री मोती कश्यप को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया है।

नियम समिति में सर्वश्री गोपीलाल जाटव, चेतन्य कुमार काश्यप, बाबूलाल गौर, बालकृष्ण पाटीदार, मधु भगत, सचिन यादव, सोहनलाल बाल्मीक, संजय शर्मा एवं श्रीमती लोरेन बी. लोबो सदस्य नामांकित किये गये हैं। विधि और विधायी कार्य मंत्री श्री रामपाल सिंह समिति के पदेन सदस्य तथा विधान सभा अध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

इंजीनियर प्रदीप लारिया को प्रश्न एवं संदर्भ समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। सर्वश्री गिरीश भंडारी, गोपाल परमार, चौधरी चन्द्रभान सिंह, चन्द्रशेखर देशमुख, रजनीश सिंह, डॉ. मोहन यादव, रमाकांत तिवारी, विष्णु खत्री, संजय शाह तथा कुंवर सौरभ सिंह इस समिति में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये गये हैं।

वि.स./ज.स./2017

(मुकेश मिश्रा)
अवर सचिव